

220868 - उसकी बेटी मिर्गी से पीड़ित है तो क्या वह उसे रमज़ान के दिन में दवा दे सकती है?

प्रश्न

मेरी पत्नी की बहन की आयु 23 वर्ष है और वह विशेष ज़रूरतों वाले लोगों में से है, उसकी सोच के स्तर में बौद्धिक देरी (मंद बुद्धि) पाई जाती है, और उसे मिर्गी का दौरा भी पड़ता है। किन्तु सुब्हानल्लाह ! मेरे पालनहार ने उसे ऐसा दिल दिया है जो आज्ञाकारिता और विशेषकर नमाज़ से प्यार करने वाला है। अल्लाह की क़सम मैं कामना करता हूँ कि मेरे अंदर भी उसी की तरह नमाज़ की चाहत (उत्सुकता) और उसके समय पर उसकी प्रतिबद्धता होती।

प्रश्न यह है कि : वह मिर्गी के दौरे से पीड़ित है – अल्लाह उसे स्वास्थ्य प्रदान करे – और इस अवधि में उसके अंदर वृद्धि हुई है, अपेक्षित यह है कि वह दवा का प्रयोग करे, जबकि वह रोज़ा रखने की आदी है, लेकिन उसकी माँ का डर, रोज़े की लंबी अवधि और उसे पहले से अधिक दौरे पड़ना – इन सारी चीज़ों ने उसकी माँ को आश्चर्य में डाल दिया है, और अपनी उत्सुकता के कारण उसने मुझसे फ़त्वा के बारे में प्रश्न करने की मांग की है।

तो क्या उसके लिए जायज़ है कि रमज़ान के दिन में रोज़ा तोड़ दे और रोज़ा तोड़वाकर उसे दवा दे, और उसके बाद उसे रोज़ा पूरा करने के लिए कहे ; क्योंकि वह गुस्सा होगी कि उसने रोज़ा नहीं रखा।

विस्तृत उत्तर

उत्तर:

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

सर्व प्रथम:

प्रश्न संख्या(50555) के उत्तर में उल्लेख किया जा चुका है कि : बीमारी, रोज़ा तोड़ने को वैध ठहराने वाले कारणों में से है। इसी तरह यदि बीमार व्यक्ति को रमज़ान के दिन के दौरान इलाज की ज़रूरत है, तो उसके लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ है और उसने जिन दिनों के रोज़े तोड़ दिए हैं उनकी (बाद में) क़ज़ा करेगा।

इस आधार पर, उस लड़की की माँ के लिए अपनी बेटी को रमज़ान के दिन के दौरान दवा देने में कोई आपत्ति की बात नहीं है, यदि रोज़ा उसकी बेटी को नुकसान पहुँचाता है, या उसकी बीमारी को बढ़ा देता है। इस स्थिति में उसे चाहिए कि अपनी बेटी को इस तथ्य से आश्वस्त कर दे कि उसके लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ है ; क्योंकि वह बीमार है, और अल्लाह सर्वशक्तिमान ने अपनी दया से बीमार को माज़ूर (क्षम्य) करार दिया है, जैसा कि अल्लाह सर्वशक्तिमान का कथन है:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. [البقرة: 185]

“और जो बीमारहो या यात्रा परहो तो वह दूसरेदिनों में उसकीगिन्ती पूरी करे।”(सूरतुलबकरा : 185)

और इसमें कोई हरजनहीं है कि वह उसेरोज़ा मुकम्मल करनेदे लेकिन रमज़ानके बाद वह उसकीजगह पर एक दिन क़ज़ाकरेगी।

शेख अब्दुल अज़ीज़बिन बाज़ रहिमहुल्लाहसे प्रश्न कियागया:

मुझे मानसिक रोगहै, मैं ने अपनेआपको डाक्टर परपेश किया तो उसनेगोलियों के रूपमें पाँच साल कीअवधि के लिए हरबारह घंटे मेंएक गोली के खुराकदिए। तो मैं क्याकरूँ विशेषकर रमज़ानके महीने में।फिर यह भी है किरोज़ा पंद्रह घंटेतक पहुँच जाताहै। यदि मैं इसअवधि से एक घंटेसे भी कम विलंबकर दूँ तो मुझेयह बीमारी, मिर्गीलौट आयेगी।

तो उन्होंने ने उत्तरदिया : अल्लाह सर्वशक्तिमानफरमाता है:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

“तुम अपनी शक्तिभर अल्लाह से डरतेरहो।”

तो जब वह ऐसी बीमारीहै जो (दवा की) खुराकको उसके समय सेविलंब करने सेहोती है, तो रोज़ातोड़ने में कोईहरज (हानि) की बातनहीं है, यदिदिन पंद्रह घंटेका होता है।इस तरह के दिनोंमें वह गोली खानेमें कोई आपत्तिनहीं है जो उसकेलिए डाक्टर केद्वारा बताई गईहै। इसके द्वारावह रोज़ा तोड़ देगाऔर इस दिन की क़ज़ाकरेगा उस गोलीके खाने की वजहसे।तथावह खाने पीने सेरूक जायेगा औरक़ज़ा करेगा ; क्योंकिउसने उसी की वजहसे रोज़ा तोड़ा है।अतः वह रोज़ा तोड़देगा और खाने पीनेसे रूक जायेगाऔर बाद में उसकीक़ज़ा करेगा। लेकिनयदि वह उसे विलंबकरने पर सक्षमहै और उसके ऊपरकठिन नहीं है तोउसके लिए विलंबकरना अनिवार्यहै यहाँ तक कि उसेवह रात के समय खायेगा।”

“फतावानूरून अला अद-दर्ब”(16/130)

तथा लाभ के लिएप्रश्न संख्या(97798) का उत्तर देखें।

दूसरा :

आप ने उस लड़की केबारे में जो उल्लेखकिया है कि वह बीमारीसे पीड़ित होनेके बावजूद आज्ञाकारिताका इच्छुक और भलाईके कामों से प्यारकरती है, तो यहआपके लिए भलाईके कामों के अंदरजल्दी करने औरउसके लिए उत्सुकतापर प्रेरणादायकहोना चाहिए। क्योंकिसक्षम आदमी कीओर से कमी का होनाअसक्षम व्यक्तिकी ओर से कमी होनेकी तरह नहीं है।एक सक्षम व्यक्तिकी कमी को दोष मेंगिना जाता है,जैसाकिकिसी कहने वालेने कहा है :

मैं ने लोगों के दोषों में, पूरा करने पर सक्षम व्यक्ति की कमी की तरह कोई चीज़ नहीं देखी।

अल्लाह हमारी और आपकी अपनी आज्ञाकारिता पर और उसमें जल्दी करने पर सहायता करे, और उस महिला के लिए शीघ्र स्वास्थ्य लिख दे, निःसंदेह वह इसका मालिक और इस पर सर्वशक्तिमान है।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।